

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 240]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 जून 2015—ज्येष्ठ 27, शक 1937

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

भोपाल, दिनांक 17 जून, 2015 ( ज्येष्ठ 27, 1937 )

क्र. 12604-वि.स.-विधान-2015.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 17 जून, 2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा, इस राज्य की विधान सभा को सोमवार, दिनांक 20 जुलाई, 2015 को पूर्वाह्न 10.30 बजे भोपाल में समवेत् होने के लिए आमंत्रित करता हूँ.

भोपाल :  
दिनांक 17 जून, 2015

राम नरेश यादव  
राज्यपाल,  
मध्यप्रदेश.”

भगवानदेव ईसरानी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.